

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा किए गये सराहनीय कार्यों का विवरण

दुष्कर्म की घटना कारित करने के मामले में वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना दुधारा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 297/20 धारा 406/419/420/376/313/504/506 भा0द0वि0 व 3(2)(v) एससी / एसटी एक्ट के मामले में वाँछित अभियुक्त नाम पता मो0 उमर पुत्र सई मोहम्मद निवासी गंगईचा थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार किया गया ।

विदित हो कि अभियुक्त द्वारा वादिनी के साथ अवैध शारीरिक सम्बन्ध बनाकर वीडियो वायरल करने की धमकी दी गयी तथा गर्भपात करवाने हेतु जबरदस्ती दबाव बनाया गया व वादिनी की जमीन बेचवाकर पैसा हड़प कर लिया गया व मांगने पर गाली गुप्ता देते हुए जान माल की धमकी दी गयी । जिसके सम्बन्ध में वादिनी द्वारा दिनांक 01.10.2020 को अभियोग पंजीकृत कराया गया था जिसमें आज दिनांक 04.10.2020 को अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय खाना किया गया ।

घर में घुसकर लड़की के साथ छेड़छाड करने के मामले में वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना दुधारा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 299/20 धारा 452 / 354(क) भा0द0वि0 व 7/8 पाक्सो एक्ट के मामले में वाँछित अभियुक्त नाम पता सूरज पुत्र रामकेश निवासी कुशहरा थाना बेलहरकला जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार किया गया ।

विदित हो कि अभियुक्त द्वारा दिनांक 03.10.2020 को वादिनी की पुत्री के साथ घर में घुसकर छेड़छाड की गयी थी जिसके सम्बन्ध में वादिनी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 04.10.2020 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय खाना किया गया ।

आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत 05 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 01 अभियुक्त अभियुक्त गिरफ्तार

थाना बखिरा पुलिस द्वारा 05 ली0 अवैध कच्ची शराब के साथ 01 अभियुक्त नाम पता आलोक राव पुत्र रामवृक्ष राव निवासी ककरहियापार कस्बा बखिरा थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को 05 लीटर अवैध कच्ची के साथ गिरफ्तार कर थाना बखिरा पर मु0अ0सं0 370/20 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया ।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 19 अभियुक्त गिरफ्तार

- थाना को0 खलीलाबाद पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी में 07 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना दुधारा पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी में 04 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना बखिरा पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी में 05 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी में 03 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1484 द्वारा रेप के आरोपित को किया गया गिरफ्तार – पीआरवी 1484 को धनघटा से इवेन्ट संख्या 00038 से रेप का प्रयास के सम्बन्ध में सूचना दिया । सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा तत्काल 08 मिनट में मौके पर पहुँचकर प्रतिवादी को थाना धनघटा के सुपुर्द किया गया व वादी को विधिक कार्यवाही हेतु थाना धनघटा जाने हेतु बताया गया । पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुचकर एक बड़ी घटना के घटित होने से बचा लिया गया, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई ।

पीआरवी स्टाफ – मु0आरक्षी सुदामा प्रसाद, आरक्षी जितेन्द्र सिंह, हो0चा0 सुनील अग्रहरी ।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 117 वाहनो से 104900 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया
आज दिनांक 04-10-2020 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 117 वाहनो से 104900 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।